



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 3, 2006/पौष 13, 1927

No. 7]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 2006/PAUSA 13, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2006

का.आ. 8(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 19 (अ), तारीख 4 जनवरी, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा केरल राज्य के त्रिसूर और एर्नाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 के 270.000 कि.मी. से 332.600 कि.मी. (मन्नूथी से अलूवा सेक्शन) तक के भूखंड, जिसमें बाईपास, यदि कोई है, का निर्माण भी शामिल है, का निर्माण करने (चौड़ा करने) के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, उक्त अधिसूचना का सार “दि इंडियन एक्सप्रेस” और “मंगलम” दोनों में तारीख 14 जनवरी, 2005 को प्रकाशित किया गया था ;

और, भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप प्राप्त हुए थे जिन पर सक्षम प्राधिकारी ने विचार कर लिया है और उनका निपटारा कर दिया है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

## अनुसूची

केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 270.000 कि.मी. से 332.600 कि.मी. (मन्थूथी-अलुवा सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा) करने के लिए इस भूखण्ड के अंतर्गत अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भू-स्वामियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	एर्नाकुलम	अलुवा	कार्लकुट्टी	35 / 3	शुष्क	स्थानीय निकाय	20	सड़क, स्थानीय निकाय
				35 / 4	शुष्क	निजी	1533	मुहम्मदाली
				35 / 5	शुष्क	निजी	8919	पी.डी. सुधीसन
				41 / 3	शुष्क	स्थानीय निकाय	27	सड़क
				41 / 4	शुष्क	निजी	642	केएसईबी
				42 / 12	शुष्क	निजी	96	जोस पृथामना एवं एलेक्स
				42 / 13	शुष्क	निजी	151	वारीथ
				42 / 14	शुष्क	निजी	367	अब्राहम @ अप्रेम
				42 / 15	शुष्क	निजी	215	अन्नाकुट्टी एवं अन्य
				42 / 16	शुष्क	निजी	75	सेबी जोसेफ
				42 / 17	शुष्क	निजी	13	कुरियन
				42 / 18	शुष्क	निजी	92	टी.वी. एण्टोनी
				59 / 4	शुष्क	स्थानीय निकाय	20	कुआँ स्थानीय निकाय
				59 / 13	शुष्क	निजी	138	थॉमस
				59 / 14ए	शुष्क	निजी	52	जैकब पीटर, टी.वी. चाको, देवासी, जॉसन
				59 / 14बी	शुष्क	निजी	86	जैकब पीटर, टी.वी. चाको, देवासी, जॉसन
				59 / 15	शुष्क	निजी	86	अध्यक्ष, प्रीमियर केबल कर्मचारी संघ
				59 / 16	शुष्क	निजी	223	थॉमस
				62 / 18	शुष्क	स्थानीय निकाय	32	सड़क
				62 / 19	शुष्क	निजी	237	पी.सी. वर्गिस
				62 / 20	शुष्क	निजी	205	एण्टोनी
				62 / 21	शुष्क	निजी	186	देवासीकुट्टी
				62 / 22	शुष्क	निजी	300	मदर सुपीरियर, नसरथ सीएसएन कॉवेंट
				62 / 23	शुष्क	निजी	90	मदर सुपीरियर, नसरथ सीएसएन कॉवेंट
				62 / 24	शुष्क	निजी	66	के.एम. गीवर्गिस इल्डो
				62 / 26	शुष्क	निजी	59	पप्पाचन एवं मरियम्मा
				62 / 27	शुष्क	निजी	49	डेविस एवं मरियम्मा
				62 / 28	शुष्क	निजी	123	थॉमस
				64 / 1	शुष्क	स्थानीय निकाय	65	स्थानीय निकाय, सड़क
				64 / 42	शुष्क	निजी	138	कोरथ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				64 / 50	शुष्क	स्थानीय निकाय	33	रास्ता, स्थानीय निकाय
				70 / 11/1	शुष्क	निजी	425	थॉमस
				70 / 21	शुष्क	निजी	105	थॉमस
				73 / 18ए	शुष्क	निजी	52	रास्ता, स्थानीय निकाय
				73 / 18 बी	शुष्क	निजी	596	एल्सी
				73 / 19	शुष्क	निजी	440	चकाप्पन
				74 / 13	शुष्क	निजी	212	पॉली
				74 / 14	शुष्क	निजी	222	जोसेफ
				74 / 15	शुष्क	निजी	32	रोसाकुट्टी
				75 / 14	शुष्क	निजी	126	थॉमस
				75 / 15	शुष्क	निजी	1	थॉमस
				75 / 16	शुष्क	निजी	207	पियूस
				108 / 19	शुष्क	निजी	370	सेबास्टिन
				108 / 20	शुष्क	निजी	450	उरुमिस
				113 / 17	शुष्क	निजी	938	मैरी
				113 / 19	शुष्क	निजी	240	वी.सी. जोस
				113 / 20	शुष्क	निजी	304	जॉर्ज एवं फिलोमिना
				121 / 35	शुष्क	निजी	262	पॉली, एण्टोनी, सेबी जोसेफ, बिजु जोसेफ
				121 / 36	शुष्क	निजी	102	श्रेसिममा पॉल एवं अन्य
				121 / 38	शुष्क	निजी	18	ई.वी. जोस
				121 / 39	शुष्क	निजी	59	ई.वी. जोस
				121 / 40	शुष्क	निजी	3	ई.वी. जोस
				121 / 41	शुष्क	निजी	114	ई.वी. जोस
				121 / 42	शुष्क	निजी	11	पी.वी. चाको एवं अन्य
				121 / 43	शुष्क	निजी	122	पीटर, सिजो कुंजाचन
				125 / 21	शुष्क	निजी	421	बेबी एवं अन्य
				125 / 32	शुष्क	स्थानीय निकाय	41	स्थानीय निकाय, सड़क
				214 / 28	शुष्क	निजी	13	जोस एवं टेरेसिना
				215 / 13	शुष्क	निजी	125	अब्दुल अजीज
				215 / 14	शुष्क	निजी	2	अब्दुल अजीज
				215 / 15	शुष्क	निजी	14	चाक्कूनी, भास्करन एवं अन्य
				215 / 16	शुष्क	निजी	19	चाक्कूनी, भास्करन एवं अन्य
				215 / 17	शुष्क	निजी	57	चाक्कूनी, भास्करन एवं अन्य
				215 / 18	शुष्क	निजी	33	सुभद्रा
				215 / 19	शुष्क	निजी	120	लीजी पॉल
				215 / 20	शुष्क	निजी	179	मरियम
				215 / 21	शुष्क	निजी	34	मरियम
				215 / 22	शुष्क	निजी	122	एण्टोनी
				215 / 23	शुष्क	निजी	121	जेसी बेबी
				215 / 24	शुष्क	निजी	170	अलिम्मा, अलिकुट्टी
				220 / 1	शुष्क	निजी	25	वर्गिस, अनी जॉर्ज एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				220	/ 19	शुष्क	स्थानीय निकाय	34	रास्ता, स्थानीय निकाय
				220	/ 20	शुष्क	निजी	288	अन्नाकुट्टी एवं अन्य
				220	/ 25	शुष्क	निजी	141	थॉमस एवं थेरेसिया
				220	/ 26	शुष्क	निजी	540	पॉलोस एवं अनीस एम.पी. जॉय
				220	/ 27	शुष्क	निजी	170	जिम जोस
				222	/ 6	शुष्क	निजी	100	एण्टोनी
				222	/ 30	शुष्क	निजी	140	विसेंट
				222	/ 31	शुष्क	स्थानीय निकाय	20	रास्ता, स्थानीय निकाय
				225	/ 17	शुष्क	स्थानीय निकाय	33	स्थानीय निकाय, सड़क
				225	/ 18	शुष्क	निजी	124	एण्टोनी
				225	/ 19	शुष्क	निजी	118	बाबू, जोस एवं मैथ्यू
				225	/ 21	शुष्क	निजी	99	डेविस
				225	/ 22	शुष्क	निजी	484	ई.जी. वरकियच्चन
				225	/ 20ए	शुष्क	निजी	218	ऑसेफ एवं अन्य
				225	/ 20 बी	शुष्क	निजी	193	ऑसेफ एवं अन्य
				226	/ 13	शुष्क	निजी	148	एण्टोनी एवं इंगोबर्ग
				226	/ 14	शुष्क	निजी	221	जैमन एवं सीजा जोस
				226	/ 15	शुष्क	निजी	198	के.वी. जोस
				226	/ 16	शुष्क	निजी	145	रॉबिंसन
				226	/ 25	शुष्क	निजी	200	जोसेफ एवं जैमन जोसेफ
				239	1/ 6	शुष्क	निजी	41	दीपा बालचन्द्रन
				239	1/ 7	शुष्क	निजी	17	शीला टिटुस
				239	/ 18	शुष्क	निजी	123	जॉर्ज
				239	/ 19	शुष्क	निजी	130	वरकियच्चन ई.जे.
				239	/ 20	शुष्क	निजी	70	वरकियच्चन ई.जे.
				239	/ 21	शुष्क	निजी	55	शीला टिटुस
				239	/ 22	शुष्क	निजी	112	वरकियच्चन ई.जे.
				239	/ 23	शुष्क	निजी	123	डिजु
				239	/ 24	शुष्क	निजी	144	डिजु
				239	/ 25	शुष्क	निजी	157	डिजु
				239	/ 26	शुष्क	निजी	149	डिजु
				239	/ 27	शुष्क	निजी	90	डिजु
				248	3/ 2	शुष्क	निजी	47	जोस ए. ए
				248	/ 23	शुष्क	स्थानीय निकाय	100	सड़क, स्थानीय निकाय
				248	/ 24	शुष्क	निजी	80	वीकर, सेंट जॉर्ज याकोबाया चर्च एवं अन्य
				248	/ 25	शुष्क	निजी	65	के.पी. सेबास्टिन
				248	/ 26	शुष्क	निजी	150	डॉ. एलिआस
				248	/ 27	शुष्क	निजी	153	पी.पी. वर्गिस
				248	/ 28	शुष्क	निजी	183	वर्गिस
				248	/ 29	शुष्क	निजी	434	सजीव एलियास
				248	/ 30	शुष्क	निजी	35	वर्गिस
				248	/ 31	शुष्क	निजी	170	एलियास

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				248 / 32	शुष्क	निजी	220	पॉल्सन
				257 / 3	शुष्क	निजी	2	वर्की एवं मरिअम्मा
				257 / 14	शुष्क	निजी	761	वर्की एवं मरिअम्मा
				257 / 15	शुष्क	निजी	174	वर्की एवं मरिअम्मा
				257 / 16	शुष्क	निजी	75	वर्की एवं मरिअम्मा
				259 / 4	शुष्क	निजी	105	सचिव, सेवा सहकारी बैंक
				259 / 18	शुष्क	निजी	94	विकार, सेण्ट जॉर्ज जेकोबाइट चर्च
				259 / 20	शुष्क	निजी	158	शाजु
				259 / 22	शुष्क	निजी	66	वी. जे. मैथ्यूज
				259 / 23	शुष्क	निजी	207	जॉनी एवं मौली
				259 / 24	शुष्क	स्थानीय निकाय	30	सड़क, स्थानीय निकाय
				259 / 26	शुष्क	निजी	76	थॉमस एवं अन्य
				259 / 27	शुष्क	निजी	6	स्टेला एवं अन्य
				260 / 15	शुष्क	निजी	399	नैथी एवं अन्य
				260 / 16	शुष्क	निजी	440	प्रबंधक सेण्ट जोसेफ एलपीएस
				260 / 17	शुष्क	निजी	134	जोसेफ, प्रबंधक - सेण्ट जोसेफ एलपीएस
				260 / 18	शुष्क	निजी	34	जॉनी
				260 / 19	शुष्क	स्थानीय निकाय	102	सड़क, स्थानीय निकाय
				266 / 15	शुष्क	निजी	81	एलियास
				266 / 22	शुष्क	निजी	20	वर्गिस
				266 / 23	शुष्क	निजी	164	वर्की
				266 / 24	शुष्क	निजी	124	एलियास एवं साराम्मा
				266 / 25	शुष्क	निजी	114	पी.वी. जोसेफ
				266 / 26	शुष्क	निजी	80	मैरी क्लेटस
				266 / 27	शुष्क	निजी	156	एलियास
				266 / 28	शुष्क	निजी	95	कोचुवर्की
				266 / 30	शुष्क	निजी	358	देवासी
				266 / 31	शुष्क	निजी	28	देवासी
				266 / 32	शुष्क	निजी	107	बीजु
				278 / 22	शुष्क	निजी	23	एम.सी. बेबी
				278 / 29	शुष्क	स्थानीय निकाय	44	सड़क, स्थानीय निकाय
				278 / 32	शुष्क	निजी	260	अब्दुल रज्जाक एवं सिद्धीकी
				278 / 33	शुष्क	निजी	43	पी.सी. जोसेफ
				278 / 36	शुष्क	निजी	245	'आचम्मा पॉलोस एवं अन्य
				279 / 12	शुष्क	स्थानीय निकाय	16	रास्ता, स्थानीय निकाय
				279 / 18	शुष्क	निजी	47	डॉ. एम.वी. जोसेफ
				279 / 19	शुष्क	निजी	125	पी.वी. चेरियन
				279 / 20	शुष्क	निजी	36	डॉ. एम.वी. जोसेफ
				279 / 21	शुष्क	निजी	199	मर्सी एवं पर्थार्सिस @ जोस
				279 / 22	शुष्क	निजी	244	मैरी थॉमस
				279 / 23	शुष्क	स्थानीय निकाय	26	रास्ता, स्थानीय निकाय
				281 / 19	शुष्क	स्थानीय निकाय	40	सड़क, स्थानीय निकाय

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				281 / 33	शुष्क	निजी	100	पी.वी. वर्गिस
				302 / 18	शुष्क	निजी	913	चन्द्रिका
				302 / 19	शुष्क	निजी	77	एल्डो
				302 / 20	शुष्क	निजी	22	मोहम्मद कुट्टी एवं अन्य
				302 / 21	शुष्क	निजी	50	स्टीफन
				302 / 22	शुष्क	निजी	613	स्टीफन
				302 / 23	शुष्क	निजी	60	स्टीफन
				302 / 24	शुष्क	निजी	5	स्टीफन
				302 / 25	शुष्क	निजी	77	स्टीफन
				302 / 26	शुष्क	निजी	149	स्टीफन
				302 / 27	नम	स्थानीय निकाय	384	स्थानीय निकाय, थोदु
				302 / 28	नम	स्थानीय निकाय	295	स्थानीय निकाय, थोदु

[फा. सं. भाराप्र/तक/एलए/एम-ए/1/2003/एल ए-108]

प्रभाकर, उप-सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
(Department of Road Transport and Highways)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd January, 2006

**S.O. 8(E)**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O.19 (E), dated the 4<sup>th</sup> January, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary; Part II, Section 3, Sub-section (ii), and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of building (widening) of National Highway No.47, including construction of bypasses, if any, on the stretch of land from Km. 270.000 to Km. 332.600 (Mannuthy to Aluva Section) in Districts Thrissur and Ernakulam in the State of Kerala;

And whereas the substance of the said notification was published in "The Indian Express" and "Mangalam", both dated the 14<sup>th</sup> January 2005;

And whereas objections have been received from the persons interested in the land and the same have been considered and disposed of by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3 D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Land to be acquired, with or without structures for building (widening) of NH 47 falling within the stretch from km. 270.000 to km. 332.600 (Mannuthy - Aluva Section ) in Ernakulam District in the State of Kerala

Serial number	Name of district	Name of taluk	Name of village	Survey number	Nature of land	Type of land	Extent of land (in square meter)	Name of land owner
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ernakulam	Aluva	Karukutty	35 / 3	Dry	Local Body	20	Road, Local Body
				35 / 4	Dry	Private	1533	Muhammedali
				35 / 5	Dry	Private	8919	P. D. Sudheesan
				41 / 3	Dry	Local Body	27	Road
				41 / 4	Dry	Private	642	KSEB
				42 / 12	Dry	Private	96	Jose Puthumana and Alex
				42 / 13	Dry	Private	151	Vareeth
				42 / 14	Dry	Private	367	Abraham @ Aprem
				42 / 15	Dry	Private	215	Annakkutty and others
				42 / 16	Dry	Private	75	Sebi Joseph
				42 / 17	Dry	Private	13	Kurian
				42 / 18	Dry	Private	92	T. V. Antony
				59 / 4	Dry	Local Body	20	Well Local body
				59 / 13	Dry	Private	138	Thomas
				59 / 14A	Dry	Private	52	Jacob Peter , T. V. Chacko, Devassy , Johnson,
				59 / 14B	Dry	Private	86	Jacob Peter , T. V. Chacko, Devassy , Johnson,
				59 / 15	Dry	Private	86	Preseident, Premier Cable Employees Union
				59 / 16	Dry	Private	223	Thomas
				62 / 18	Dry	Local Body	32	Road
				62 / 19	Dry	Private	237	P. C. Varghese
				62 / 20	Dry	Private	205	Antony
				62 / 21	Dry	Private	186	Devassykutty
				62 / 22	Dry	Private	300	Mother Superior, Nasrath CSN Convent
				62 / 23	Dry	Private	90	Mother Superior, Nasrath CSN Convent
				62 / 24	Dry	Private	66	K. M. Geevarghese Eldo
				62 / 26	Dry	Private	59	Pappachan and Mariamma
				62 / 27	Dry	Private	49	Davis and Mariamma
				62 / 28	Dry	Private	123	Thomas
				64 / 41	Dry	Local Body	65	Local Body, Road
				64 / 42	Dry	Private	138	Korath
				64 / 50	Dry	Local Body	33	Pathway, Local body
				70 / 11/1	Dry	Private	425	Thomas
				70 / 21	Dry	Private	105	Thomas

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				73 / 18A	Dry	Private	52	Pathway, Local body
				73 / 18B	Dry	Private	596	Elsy
				73 / 19	Dry	Private	440	Chackappan
				74 / 13	Dry	Private	212	Poly
				74 / 14	Dry	Private	222	Joseph
				74 / 15	Dry	Private	32	Rosakkutty
				75 / 14	Dry	Private	126	Thomas
				75 / 15	Dry	Private	1	Thomas
				75 / 16	Dry	Private	207	Piyoos
				108 / 19	Dry	Private	370	Sebastian
				108 / 20	Dry	Private	450	Urumees
				113 / 17	Dry	Private	938	Mary
				113 / 19	Dry	Private	240	V. C. Jose
				113 / 20	Dry	Private	304	George and Philomina
				121 / 35	Dry	Private	262	Poly, Antony, Seby Joseph, Biju Joseph
				121 / 36	Dry	Private	102	Thressiamma Paul and others
				121 / 38	Dry	Private	18	E. V. Jose
				121 / 39	Dry	Private	59	E. V. Jose
				121 / 40	Dry	Private	3	E. V. Jose
				121 / 41	Dry	Private	114	E. V. Jose
				121 / 42	Dry	Private	11	P. V. Chacko and others
				121 / 43	Dry	Private	122	Peter, Sijo Kunjachan
				125 / 21	Dry	Private	421	Baby and others
				125 / 32	Dry	Local Body	41	Local Body, Road
				214 / 28	Dry	Private	13	Jose and Tereseena*
				215 / 13	Dry	Private	125	Abdul Azeez
				215 / 14	Dry	Private	2	Abdul Azeez
				215 / 15	Dry	Private	14	Chakkunni, Bhaskaran and
				215 / 16	Dry	Private	19	Chakkunni, Bhaskaran and
				215 / 17	Dry	Private	57	Chakkunni, Bhaskaran and
				215 / 18	Dry	Private	33	Subhadra
				215 / 19	Dry	Private	120	Liji Paul
				215 / 20	Dry	Private	179	Mariyam
				215 / 21	Dry	Private	34	Mariyam
				215 / 22	Dry	Private	122	Antony
				215 / 23	Dry	Private	121	Jessy Baby
				215 / 24	Dry	Private	170	Aliamma, Alikutty
				220 / 1	Dry	Private	25	Varghese, Ani George and others
				220 / 19	Dry	Local Body	34	Pathway, Local body
				220 / 20	Dry	Private	288	Annakkutty and others
				220 / 25	Dry	Private	141	Thomas and Thressiamma
				220 / 26	Dry	Private	540	Poulose and Anees, M. P. Joy
				220 / 27	Dry	Private	170	Jim Jose



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				222	/6	Dry	Private	100	Antony
				222	/30	Dry	Private	140	Vincent
				222	/31	Dry	Local Body	20	Pathway, Local body
				225	/17	Dry	Local Body	33	Local Body, Road
				225	/18	Dry	Private	124	Antony
				225	/19	Dry	Private	118	Babu, Jose and Mathew
				225	/21	Dry	Private	99	Davis
				225	/22	Dry	Private	484	E. J. Varkeyachan
				225	/20A	Dry	Private	218	Ouseph and others
				225	/20B	Dry	Private	193	Ouseph and others
				226	/13	Dry	Private	148	Antony and Ingoburg
				226	/14	Dry	Private	221	Jaimon and Sheeja Jose
				226	/15	Dry	Private	198	K. V. Jose
				226	/16	Dry	Private	145	Robinson
				226	/25	Dry	Private	200	Joseph and Jaimon Joseph
				239	1/6	Dry	Private	41	Deepa Balachandran
				239	1/7	Dry	Private	17	Sheela Titus
				239	/18	Dry	Private	123	George
				239	/19	Dry	Private	130	Varkeyachan .E. J.
				239	/20	Dry	Private	70	Varkeyachan .E. J.
				239	/21	Dry	Private	55	Sheela Titus
				239	/22	Dry	Private	112	Varkeyachan .E. J.
				239	/23	Dry	Private	123	Diju
				239	/24	Dry	Private	144	Diju
				239	/25	Dry	Private	157	Diju
				239	/26	Dry	Private	149	Diju
				239	/27	Dry	Private	90	Diju
				248	3/2	Dry	Private	47	Jose. A. A
				248	/23	Dry	Local Body	100	Road, Local Body
				248	/24	Dry	Private	80	Vicar, St. George Yakkobaya Church and others
				248	/25	Dry	Private	65	K. P. Sebastian
				248	/26	Dry	Private	150	Dr. Alias
				248	/27	Dry	Private	153	P. P. Varghese
				248	/28	Dry	Private	183	Varghese
				248	/29	Dry	Private	434	Sajeew Alias
				248	/30	Dry	Private	35	Varghese
				248	/31	Dry	Private	170	Alias
				248	/32	Dry	Private	220	Polson
				257	1/3	Dry	Private	2	Varkey and Mariyamma
				257	/14	Dry	Private	761	Varkey and Mariyamma
				257	/15	Dry	Private	174	Varkey and Mariyamma
				257	/16	Dry	Private	75	Varkey and Mariyamma
				259	/4	Dry	Private	105	Secretary, Service Co-Operative Bank

18 91/2006 - 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				259 / 18	Dry	Private	94	Vicar, St. George Jacobite Church
				259 / 20	Dry	Private	158	Shaju
				259 / 22	Dry	Private	66	V. J Mathews
				259 / 23	Dry	Private	207	Johny and Moly
				259 / 24	Dry	Local Body	30	Road, Local Body
				259 / 26	Dry	Private	76	Thomas and others
				259 / 27	Dry	Private	6	Stella and others
				260 / 15	Dry	Private	399	Naithi and others
				260 / 16	Dry	Private	440	Manager St. Joseph's LPS
				260 / 17	Dry	Private	134	Joseph, Manager - St. Joseph's LPS
				260 / 18	Dry	Private	34	Johny
				260 / 19	Dry	Local Body	102	Road, Local Body
				266 / 15	Dry	Private	81	Alias
				266 / 22	Dry	Private	20	Varghese
				266 / 23	Dry	Private	164	Varkey
				266 / 24	Dry	Private	124	Alias and Saramma
				266 / 25	Dry	Private	114	P. V. Joseph
				266 / 26	Dry	Private	80	Mary Cletus
				266 / 27	Dry	Private	156	Alias
				266 / 28	Dry	Private	95	Kochuvarkey
				266 / 30	Dry	Private	358	Devassy
				266 / 31	Dry	Private	28	Devassy
				266 / 32	Dry	Private	107	Biju
				278 / 22	Dry	Private	23	M. C. Baby
				278 / 29	Dry	Local Body	44	Road, Local Body
				278 / 32	Dry	Private	260	Abdul Razack and Sidhique
				278 / 33	Dry	Private	43	P. C. Joseph and others
				278 / 36	Dry	Private	245	Achamma Poullose and others
				279 / 12	Dry	Local Body	16	Pathway, Local body
				279 / 18	Dry	Private	47	Dr. M. V. Joseph
				279 / 19	Dry	Private	125	P. V. Cheriyan
				279 / 20	Dry	Private	36	Dr. M. V. Joseph
				279 / 21	Dry	Private	199	Mercy and Perthasis @ Jose
				279 / 22	Dry	Private	244	Mary Thomas
				279 / 23	Dry	Local Body	26	Pathway, Local body
				281 / 19	Dry	Local Body	40	Road, Local Body
				281 / 33	Dry	Private	100	P. V. Varghese
				302 / 18	Dry	Private	913	Chandrika
				302 / 19	Dry	Private	77	Eldo
				302 / 20	Dry	Private	22	Mohammed kutty and others
				302 / 21	Dry	Private	50	Stephen
				302 / 22	Dry	Private	613	Stephen
				302 / 23	Dry	Private	60	Stephen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				302	/24	Dry	Private	5	Stephen
				302	/25	Dry	Private	77	Stephen
				302	/26	Dry	Private	149	Stephen
				302	/27	Wet	Local Body	384	Local Body, Thodu
				302	/28	Wet	Local Body	295	Local Body, Thodu

[F. No. NHAI/Tech/LA/M-A/1/2003/LA-108]

PRABHAKAR, Dy. Secy.